

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज

पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

कौन आवेदन दे सकता है- ऐसे व्यक्ति (महिला/पुरुष) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हैं तथा उनके लिए कार्य करना चाहते हैं इनमें शिक्षक (सेवा निवृत्त शिक्षक सहित), सेवा निवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डाक्टर, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवी समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति (विद्वान अधिवक्ता को छोड़कर) जो स्वयं सेवा में रुचि रखते हो तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार उचित समझे। पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयं सेवक यदि पैनल में रहने के इच्छुक हैं तो उन्हें भी पुनः आवेदन देने की आवश्यकता है।

पारा विधिक स्वयं सेवक के कार्य- पारा विधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार सौंपे।

पदों की संख्या - 100 (एक सौ)। चूंकि पारा विधिक स्वयं सेवकों से गाँवों या गाँवों के समूह में कार्य लेना है। अतः जिले के सभी क्षेत्रों से पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जायेगा। आवेदक अपने-अपने प्रखंड के लिए ही आवेदन करेंगे।

आरक्षण- पारा विधिक स्वयं सेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है। अतः पदों का आरक्षण नहीं है। परन्तु स्कीम के अनुरूप सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

शैक्षणिक योग्यता- मैट्रिक

न्यूनतम आयु - दिनांक - 24.02.2021 तक 18 वर्ष पूर्ण हो |

आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन तथा स्व घोषणा (**self declaration**) कि आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं है, जिसका प्रारूप संलग्न है, साफ़ - साफ़ भड़कर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का स्व-अभिप्रायणित प्रमाण पत्र की छायाप्रति नीचे दिए गए पता पर पंजीकृत डाक से अथवा बंद लिफाफा में हाथों-हाथ दिनांक - 12/03/2021 के कार्यालय अवधि तक जमा करें।

मानदेय- रु 500/- प्रतिदिन। परन्तु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए देय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कोई विशेष कार्य करने हेतु सौंपती है या स्वयं सेवक गाँव से किसी व्यक्ति को विधिक सेवा हेतु विधिक सेवा प्राधिकार या ए0डी0आर0 केन्द्र में ले आता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

सामान्य अनुदेश-

1. आवेदक भारत का नागरिक हो
2. स्वस्थ हो
3. अच्छा चरित्र हो
4. समाज सेवा में रुचि रखता हो।

आवेदन भेजने का पता- "सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज, (व्यवहार न्यायालय परिसर जिला-किशनगंज) पिन-855107" (बिहार)

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि - 12/03/2021 के कार्यालय अवधि तक |

साक्षात्कार की तिथि - 16.03.2021 एवं 17.03.2021 पूर्वाह्न 11:00 बजे से व्यवहार न्यायालय किशनगंज परिसर में | विशेष परिस्थिति में साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन हो सकता है जिसकी सूचना

<https://districts.ecourts.gov.in/kishanganj> पर दी जाएगी |

नोट - PLV चयन से संबंधित अन्य सूचना के लिए <https://districts.ecourts.gov.in/kishanganj> पर समय-समय पर विजिट (visit) करें |

● **साक्षात्कार का समय - पूर्वाह्न 08:00 बजे से भी हो सकता है।**

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज

प्रपत्र

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन पत्र

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

पासपोर्ट साइज का
रंगीन फोटो
स्वअभिप्रमाणित

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि :-
4. स्थायी पता :-
ग्राम / मोहल्ला पंचायत का नाम
प्रखंड थाना.....जिला
पिन राज्य.....
5. वर्तमान पता :-
ग्राम / मोहल्ला पंचायत का नाम
प्रखंड थाना.....जिला
पिन राज्य.....
6. मोबाइल नं0/Whatsapp No..... वैकल्पिक मोबाइल नं0.....
- 7- ई-मेल (यदि हो तो) -
8. शैक्षणिक योग्यता :-
9. अन्य योग्यता :-
10. आवेदक की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा) :-
.....

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई सभी सूचना मेरी जानकारी में विश्वसनीय एवं सत्य है । इसके असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा ।

तिथि :-

स्थान :-

आवेदक का हस्ताक्षर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज
पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु
साक्षात्कार पत्र
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

पासपोर्ट साइज का
रंगीन फोटो
स्वअभिप्रमाणित

क्रमांक-
(कार्यालय उपयोग के लिए)

(आवेदक द्वारा भरा जाएगा)

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि :-
4. आवेदक की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा) :-.....
.....
5. स्थायी पता :-
ग्राम / मोहल्ला पंचायत का नाम
प्रखंड थाना..... जिला
पिन राज्य.....
6. पत्राचार पता :-
ग्राम / मोहल्ला पंचायत का नाम
प्रखंड थाना..... जिला
पिन राज्य.....
7. ई-मेल (यदि हो तो) -

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :-

तिथि :-

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

साक्षात्कार तिथि-

समय-

स्थान-

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज

घोषणा पत्र

मैं पिता -

ग्राम / मोहल्ला पंचायत का नाम

प्रखंडथाना.....जिला

पिनराज्य.....

घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं है और मुझे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध या दिवालिया घोषित नहीं किया गया है | मैं बिना किसी लोभ के, स्वेच्छा से विधिक सेवा का कार्य करना चाहता / चाहती हूँ |

आवेदक का हस्ताक्षर